

# Isa

## Chapter 60

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
קוּמִי וְאָרִי אֲרִי כִי בָּא אֲרָהָּ וּבְבוֹד יְהוָה עָלָיָהּ זָרַח:  
उठ और आया तेरा-प्रकाश और-महिमा यहोवाकी तुझ-पर उदय-हुई  
[H0215](#) [H0935](#) [H0216](#) [H3519](#) [H3068](#) [H2224](#)

“हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग! तेरा प्रकाश (परमेश्वर) आ रहा है! यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी।

2  
כִּי־ הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יִכְסֶה-הָ אָרֶץ וְעָרְפֹל לְאֻמִּים יִזְרַח יְהוָה  
क्योंकि देखो अन्धेरा ढकेगा पृथ्वीकी और-घना-कोहरा जातियोंको और-तुझ-पर उदय-होगा  
[H2009](#) [H2822](#) [H3680](#) [H0776](#) [H6205](#) [H3816](#) [H2224](#) [H3068](#)

וּבְבוֹדוֹ יִרְאֶה עָלָיָהּ  
और-उसकी-महिमा तुझ-पर दिखाई-देगी  
[H3519](#) [H7200](#)

आज अन्धेरे ने सारा जग और उसके लोगों को ढक रखा है। किन्तु यहोवा का तेज प्रकट होगा और तेरे ऊपर चमकेगा। उसका तेज तेरे ऊपर दिखाई देगा।

3  
וְהָלְכוּ וְהָלְכוּ גוֹיִם לְאֹרְהָּ וּמַלְכֵי תֵרֶה-וּדְדַיָּהּ  
और-चलेंगी जातियाँ और-राजा तेरे-प्रकाशकी-और तेरे-उदयकी  
[H1980](#) [H0216](#) [H4428](#) [H5051](#) [H2225](#)

उस समय सभी देश तेरे प्रकाश (परमेश्वर) के पास आयेंगे। राजा तेरे भव्य तेज के पास आयेंगे।

4  
שָׂאוּ- וְסָבִיב עֵינָיָהּ וְרָאִי כָל־עַם וְקָבְצוּ בָּאוּ- לָהּ מִרְחֹק יָבֹאוּ  
उठा चारों-और अपनी-आँखें और-देख सब इकट्ठे-हुए आए तेरे-पास तेरे-बेटे दूर-से आएंगे  
[H5375](#) [H5439](#) [H7200](#) [H3605](#) [H6908](#) [H0935](#) [H7350](#) [H0935](#)

וּבְנִתָּיהָ וְעַל-בָּרַךְ הָאֲמֻנָה:  
और-तेरी-बेटियाँ के-ऊपर बगल उठाई-जाएगी  
[H1323](#) [H6654](#) [H0539](#)

अपने चारों ओर देख! देख, तेरे चारों ओर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तेरी शरण में आ रहे हैं। ये सभी लोग तेरे पुत्र हैं जो दूर अति दूर से आ रहे हैं और उनके साथ तेरी पुत्रियाँ आ रही हैं।

5  
אִז תִּרְאִי וְנִהְיֶה-תְּרָאִי וְנִהְיֶה-תְּרָאִי וְנִהְיֶה-תְּרָאִי  
तब तू-देखेगी और-चमकेगी और-धड़केगा और-चौड़ा-होगा और-दिल तेरा-दिल क्योंकि मुड़ेगा तेरी-और  
[H7200](#) [H6342](#) [H7337](#) [H3824](#) [H2015](#)

וְיָבֹאוּ גוֹיִם וְיָבֹאוּ גוֹיִם וְיָבֹאוּ גוֹיִם  
आएंगे जातियोंका धन समुद्रकी तेरे-पास आएंगे  
[H0935](#) [H2428](#) [H3220](#)

“ऐसा भविष्य में होगा और ऐसे समय में जब तुम अपने लोगों को देखोगे तब तुम्हारे मुख खुशी से चमक उठेंगे। पहले तुम उत्तेजित होगे किन्तु फिर आनन्दित होवोगे। समुद्र पार देशों की सारी धन दौलत तेरे सामने धरी होगी। तेरे पास देशों की सम्पत्तियाँ आयेंगी।

6  
שָׁפַעַת וְגַמְלִים תִּכְסֶה-תּוֹצֵאֶת וְגַמְלִים תִּכְסֶה-תּוֹצֵאֶת  
बहुतायत उँटोंकी तुझे-ढकेगी और-ढकेगी और-एफाके मिद्यानके जवान तुझे-ढकेगी और-लोबान सोना आएंगे शबा-से सब  
[H8229](#) [H1581](#) [H3680](#) [H1070](#) [H5891](#) [H3605](#) [H7614](#) [H0935](#) [H2091](#) [H3828](#)

וְיָבֹאוּ וְיָבֹאוּ וְיָבֹאוּ  
और-स्तुतियाँ लाएंगे यहोवाकी सुनाएंगे  
[H5375](#) [H8416](#) [H3068](#) [H1319](#)

मिद्यान और एपा देशों के उँटों के झुण्ड तेरी धरती को ढक लेंगे। शिबा के देश से उँटों की लम्बी पंक्तियाँ तेरे यहाँ आयेंगी। वे सोना और सुगन्ध लायेंगे। लोग यहोवा के प्रशंसा के गीत गावेंगे।

7	כָּל- सब	זָאן भेड़	קָדָר केदारकी	יִקְבְּצוּ इकट्टी-होंगी	לִי तेरे-लिए	אֵילִי मेंढे	נְבוֹת नेबायोतके	יִשְׁרָתְנֶנָּה तेरी-सेवा-करेंगे	עַל- के-ऊपर	רִצּוֹן स्वीकृतिसे
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H6938</a>	<a href="#">H6908</a>		<a href="#">H5032</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H5927</a>		<a href="#">H7522</a>

מְזִבְחִי  
मेरी-वेदीपर  
וּבֵית  
और-घरको  
תְּפָאֲרָתִי  
मेरी-शोभाका  
: אֶפְאָר  
शोभित-करूँगा  
[H4196](#)  
[H8597](#)

केदार की भेड़ें इकट्टी की जायेंगी और तुझको दे दी जायेंगी। नबायोत के मेंढे तेरे लिये लाये जायेंगे। वे मेरी वेदी पर स्वीकर करने के लायक बलियाँ बनेंगे और मैं अपने अद्भुत मन्दिर और अधिक सुन्दर बनाऊँगा।

8	מִי- कौन	אֵלָה ये	כְּעָב बादलकी-तरह	תְּעוֹפִינָה उड़ते-हैं	וְכִיּוֹנִים और-कबूतरोंकी-तरह	אֵל- की-और	אַרְבְּתֵיהֶם अपने-घोसलों
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H5645</a>		<a href="#">H3123</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0699</a>

इन लोगों को देखो! ये तेरे पास ऐसी जल्दी में आ रहे हैं जैसे मेघ नभ को जल्दी पार करते हैं। ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे अपने घोसलों की ओर उड़ते हुए कपोत हों।

9	כִּי- क्योंकि	לִי मेरे-लिए	אֵיִם टापू	יִקְוּ आशा-करेंगे	וְאֲנִי और-जहाज़	תְּרִישׁ तर्शीशके	בְּרֵאשִׁי पहले	לְהָבִיא लानेको	בְּנִי तेरे-बेटोंको	מֵרָחוֹק दूर-से
		<a href="#">H0339</a>	<a href="#">H0339</a>		<a href="#">H0591</a>	<a href="#">H8659</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H7350</a>

	כִּי क्योंकि	וְהָבֵם और-उनका-सोना	אֶתָם उनके-साथ	לְשֵׁם नामके-लिए	יְהוָה यहोवा	אֶל־הִימָכֶם तेरे-एलोहीमके	וְלִקְדוֹשׁ और-पवित्रके-लिए	יִשְׂרָאֵל इसाएलके	כִּי क्योंकि
		<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H3478</a>	

פָּאֲרָה  
उसने-तुझे-शोभित-किया

सुदूर देश मेरी प्रतिक्षा में हैं। तर्शीश के बड़े-बड़े जलयान जाने को तत्पर है। ये जलयान तेरे वंशजों को दूर-दूर देशों से लाने को तत्पर हैं और इन जहाजों पर उनका स्वर्ण उनके साथ आयेगा और उनकी चाँदी भी ये जहाज लायेंगे। ऐसा इसलिये होगा कि तेरे परमेश्वर यहोवा का आदर हो। ऐसा इसलिये होगा कि इस्राएल का पवित्र अद्भुत काम करता है।

10	וּבְנוֹ और-बनाएंगे	בְּנִי- पुत्र	נִכְרִי परदेशीके	חַמְתִּי तेरी-दीवारोंको	וּמְלִכֵיהֶם और-उनके-राजा	יִשְׁרָתְנֶנָּה तेरी-सेवा-करेंगे	כִּי क्योंकि	בְּקִצְפִי अपने-क्रोध-में	הַכִּיּוֹתִי मैंने-तुझे-मारा
	<a href="#">H1129</a>		<a href="#">H5236</a>	<a href="#">H2346</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H8334</a>			<a href="#">H5221</a>

וּבְרִצּוֹנִי  
और-अपनी-प्रसन्नता-में  
: רַחֲמֵי  
मैंने-तुझपर-दया-की  
[H7522](#)  
[H7355](#)

दूसरे देशों की सन्तानें तेरी दीवारें फिर उठायेंगी और उनके शासक तेरी सेवा करेंगे। “ब मैं तुझसे क्रोधित हुआ था, मैंने तुझको दुःख दिया किन्तु अब मेरी इच्छा है कि तुझ पर कृपालु बनूँ। इसलिये तुझको मैं चैन दूँगा।

11	וּפְתוּחוֹ और-खुले-रहेंगे	שְׁעָרָיו तेरे-फाटक	תָּמִיד हमेशा	יוֹמָם दिन	וּלְיָלָה और-रात	לֹא नहीं	יִסְגְּרוּ बन्द-होंगे	לְהָבִיא लानेको	אֵלָיךָ तेरे-पास	תָּחִיל धन	גּוֹיִם जातियोंका
		<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H3119</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5462</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2428</a>	

וּמְלִכֵיהֶם  
और-उनके-राजा  
: נְהַגְּיִם  
लाए-जाते-हुए  
[H4428](#)

तेरे द्वार सदा ही खुले रहेंगे। वे दिन अथवा रात में कभी बन्द नहीं होंगे। देश और राजा तेरे पास धन लायेंगे।

12	כִּי- क्योंकि	הַגּוֹי जाति	וְהַמְּמַלְכָה और-राज्य	אֲשֶׁר जो	לֹא- नहीं	יַעֲבֹדוּ तेरी-सेवा-करेंगे	יֵאבְדוּ नष्ट-होंगे	וְהַגּוֹיִם और-जातियाँ	תָּחִיל पूरी-तरह	יִחַרְבוּ उजड़-होंगी
			<a href="#">H4467</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0006</a>			

कुछ जाति और कुछ राज्य तेरी सेवा नहीं करेंगे किन्तु वे जातियाँ और राज्य नष्ट हो जायेंगे।

מְקוֹם	לְפָאֵר	יַחַד	וּתְאִשּׁוּר	מְדַבֵּר	בְּרוּשׁ	יָבוֹא	אֵלַי	הַלְבָּנוֹן	כְּבוֹד	13
स्थान	शीभित-करनेको	एकसाथ	और-सरी	चीड़	सनीबर	आएगी	तेरे-पास	लबानोनकी	महिमा	
<a href="#">H4725</a>			<a href="#">H8391</a>	<a href="#">H8410</a>	<a href="#">H1265</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3844</a>	<a href="#">H3519</a>	

אֲכַבֵּד:	רְגִלִי	וּמְקוֹם	מִקְדָּשִׁי
मैं-सम्मानित-करूँगा	मेरे-पैरोंका	और-स्थान	मेरे-पवित्र-स्थानका
<a href="#">H3513</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H4720</a>

लबानोन की सभी महावस्तुएं तुझको अर्पित की जायेंगी। लोग तेरे पास देवदार, तालीशपत्र और सरों के पेड़ लायेंगे। यह स्थान मेरे सिंहासन के सामने एक चौकी सा होगा और मैं इसको बहुत मान दूँगा।

כָּל-	רְגִלִי	כַּפּוֹת	עַל-	וְהִשְׁתַּחֲוִּי	מִעֲנִי	בְּנִי	שָׁחוּחַ	אֵלַי	וְהִלְכוּ	14
सब	तेरे-पैरोंके	तलोंपर	के-ऊपर	और-दण्डवत-करेंगे	तेरे-सतानेवालोंके	पुत्र	झुके-हुए	तेरे-पास	और-आएंगे	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3709</a>		<a href="#">H7812</a>			<a href="#">H7817</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1980</a>	

יִשְׂרָאֵל:	קָרוֹשׁ	צִיּוֹן	יְהוּדָה	עִיר	לְךָ	וְקָרָאוּ	מִנְאֲפָיִךָ
इस्राएलका	पवित्रका	सिय्योन	यहोवाका	नगर	तुझे	और-बुलाएंगे	तेरे-अपमान-करनेवाले
<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H5006</a>

वे ही लोग जो पहले तुझको दुःख दिया करते थे, तेरे सामने झुकेंगे। वे ही लोग जो तुझसे घृणा करते थे, तेरे चरणों में झुक जायेंगे। वे ही लोग तुझको कहेंगे, 'यहोवा का नगर,' 'सिय्योन नगर इस्राएल के पवित्र का है।'

עוֹלָם	לְנֶאֱוֹן	וְשִׁמְתִי	עוֹבֵר	וְאֵין	וְשִׁנּוּאָה	עֲזוּבָה	הַיּוֹתֵךָ	תַּחַת	15
अनन्त	गौरवके-लिए	और-मैं-तुझे-ठहराऊँगा	गुजरनेवाला	और-कोई-नहीं	और-घृणित	त्यागी-हुई	तू-थी	के-बदले	
<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1347</a>			<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H8130</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8478</a>	

מְשׁוֹשׁ	הָרַר	וְדוֹר:
आनन्द	पीढ़ी	दर-पीढ़ीकी
<a href="#">H4885</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>

"फिर तुझको अकेला नहीं छोड़ा जायेगा। फिर कभी तुझसे घृणा नहीं होगी। तू फिर से कभी भी उजड़ेगी नहीं। तू महान रहेगी, तू सदा और सर्वदा आनन्दित रहेगी।

יְהוּדָה	אֲנִי	כִּי	וַיִּדְעַת	וַיִּגְקוּ	מִלְכִּים	וְשָׂר	גּוֹיִם	הַלֵּב	וַיִּנְקַת	16
यहोवा	मैं	क्योंकि	और-तू-जानेगी	तू-चूसेगी	राजाओंका	और-धन	जातियोंका	दूध	और-तू-चूसेगी	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3243</a>	<a href="#">H4428</a>			<a href="#">H2461</a>	<a href="#">H3243</a>	

יַעֲקֹב:	אָבִיר	וְנֹאֲלָה	מִוִּשְׁלֵךְ
याकूबका	शक्तिशाली	और-तेरा-छुड़ानेवाला	तेरा-उद्धारक
<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H0046</a>		<a href="#">H3467</a>

तेरी जरूरत की वस्तुएँ तुझको जातियाँ प्रदान करेंगी। यह इतना ही सहज होगा जैसे दूध मुँह बच्चे को माँ का दूध मिलता है। वैसे ही तू शासकों की सम्पत्तियाँ पियेगी। तब तुझको पता चलेगा कि यह मैं यहोवा हूँ जो तेरी रक्षा करता है। तुझको पता चल जायेगा कि वह याकूब का महामहिम तुझको बचाता है।

הַעֲצִים	וְתַחַת	כֶּסֶף	אָבִיא	הַבְּרוֹזֶל	וְתַחַת	וְהָב	אָבִיא	הַנְּחָשׁוֹת	תַּחַת	17
लकड़ीके	और-के-बदले	चाँदी	मैं-लाऊँगा	लोहेके	और-के-बदले	सोना	मैं-लाऊँगा	कासेके	के-बदले	
<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1270</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H8478</a>	

צְדָקָה:	וְנִשְׁפָּא	שְׁלוֹם	פְּקָדוֹתַי	וְשִׁמְתִי	בְּרוֹזֶל	הָאֲבָנִים	וְתַחַת	נְחָשׁוֹת
धार्मिकता	और-तेरे-शासकोंको	शान्ति	तेरे-अधिकारियोंको	और-मैं-ठहराऊँगा	लोहा	पत्थरोंके	और-के-बदले	कांसा
<a href="#">H6666</a>	<a href="#">H5065</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H6486</a>		<a href="#">H1270</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H8478</a>	

फिलहाल तेरे पास ताँबा है परन्तु इसकी जगह मैं तुझको सोना दूँगा। अभी तो तेरे पास लोहा है, पर उसकी जगह तुझे चाँदी दूँगा। तेरी लकड़ी की जगह मैं तुझको ताँबा दूँगा। तेरे पत्थरों की जगह तुझे लोहा दूँगा और तुझे दण्ड देने की जगह मैं तुझे सुख चैन दूँगा। जो लोग अभी तुझको दुःख देते हैं वे ही लोग तेरे लिये ऐसे काम करेंगे जो तुझे सुख देंगे।

ישועה	וקראת	בגבוליו	ושבר	שר	בארצו	חמוס	עור	ישמע	לא-	18
उद्धार	और-तू-बुलाएगी	तेरी-सीमाओं-में	और-तबाही	विनाश	तेरी-भूमि-में	हिंसा	फिर	सुनाई-जाएगी	नहीं	
<a href="#">H3444</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H1366</a>	<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H7701</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H2555</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3808</a>	

תהלה:	ושעריו	חומותיו
स्तुति	और-तेरे-फाटकोंको	तेरी-दीवारोंको
<a href="#">H8416</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H2346</a>

तेरे देश में हिंसा और तेरी सीमाओं में तबाही और बरबादी कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। तेरे देश में लोग फिर कभी तेरी वस्तुएँ नहीं चुरायेंगे। तू अपने परकोटों का नाम 'उद्धार' रखेगा और तू अपने द्वारों का नाम 'स्तुति' रखेगा।

יאיר	לא-	תהרה	וללנה	יומים	לאור	השמש	עור	לך	יהיה	לא-	19
चमकेगा	नहीं	चन्द्रमा	और-चमके-लिए	दिनके	प्रकाशके-लिए	सूर्य	फिर	तेरे-लिए	होगा	नहीं	
<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3394</a>	<a href="#">H5051</a>	<a href="#">H3119</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H8121</a>	<a href="#">H5750</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3808</a>	

לתפארתך:	ואלהיו	עולם	לאור	יהיה	לך	יהיה	לך
तेरी-शोभाके-लिए	और-तेरे-एलोहीम	अनन्त	प्रकाशके-लिए	यहोवा	तेरे-लिए	और-होगा	तेरे-लिए
<a href="#">H8597</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1961</a>	

"दिन के समय में तेरे लिये सूर्य का प्रकाश नहीं होगा और रात के समय में चाँद का प्रकाश तेरी रोशनी नहीं होगी। क्यों क्योंकि यहोवा ही सदैव तेरे लिये प्रकाश होगा। तेरा परमेश्वर तेरी महिमा बनेगा।

לך	יהיה	יהיה	כי	יאסג	לא	וירח	שמשך	עור	יבוא	לא-	20
तेरे-लिए	होगा	यहोवा	क्योंकि	छिपेगा	नहीं	और-तेरा-चन्द्रमा	तेरा-सूर्य	फिर	अस्त-होगा	नहीं	
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3391</a>	<a href="#">H8121</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3808</a>	

ואבך:	ימי	ושלמו	עולם	לאור
तेरे-शोकके	दिन	और-समाप्त-होंगे	अनन्त	प्रकाशके-लिए
<a href="#">H0060</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0216</a>

तेरा 'सूरज' फिर कभी भी नहीं छिपेगा। तेरा 'चाँद' कभी भी काला नहीं पड़ेगा। क्यों क्योंकि यहोवा का प्रकाश सदा सर्वदा तेरे लिये होगा और तेरा दुःख का समय समाप्त हो जायेगा।

מעשה	(מטעני)	מטעון	נצר	ארץ	יירשו	לעולם	צדיקים	כלם	ועמך	21
कार्य	मेरे-रोपेका	मेरे-रोपेका	अंकुर	भूमिको	वे-अधिकार-करेंगी	हमेशाके-लिए	धर्मी	सब	और-तेरी-प्रजा	
<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H4302</a>	<a href="#">H4302</a>	<a href="#">H5342</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H3605</a>		

לתפארתך:	ימי
शोभित-होनेको	मेरे-हाथोंका
	<a href="#">H3027</a>

"तेरे सभी लोग उत्तम बनेंगे। उनको सदा के लिये धरती मिल जायेगी। मैंने उन लोगों को रचा है। वे अद्भुत पौधे मेरे अपने ही हाथों से लगाये हुए हैं।

אחישנה:	בעתה	יהיה	אני	עצום	לנו	והצעיר	לאלף	יהיה	הקטן	22
जल्दी-करूँगा	उसके-समय-में	यहोवा	मैं	शक्तिशाली	जातिके-लिए	और-कमज़ोर	हज़ारके-लिए	होगा	छोटा	
	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H6099</a>		<a href="#">H6810</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H1961</a>		

ס  
ס

छोटे से छोटा भी विशाल घराना बन जायेगा। छोटे से छोटा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जायेगा। जब उचित समय आयेगा, मैं यहोवा शीघ्र ही आ जाऊँगा और मैं ये सभी बातें घटित कर दूँगा।"